



सत्यमेव जयते

प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अहमदाबाद साउथ  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर भवन, सरकारी पोलिटेक्निक के निकट,  
आम्बावाड़ी, अहमदाबाद - 380015

Phone: 079-26309083


Fax: 079-26309997

F. No. I/22-07/19-20/Adm

Date : 27.05.2020

**Washing Towels, Napkin and Curtain के लिए हेतु ओनलाइन निविदा**

प्रतिष्ठित सर्विस प्रोवाइडर/एजेंसी से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अहमदाबाद साउथ के लिए **Towels, Napkin and Curtain** के **Washing** लिए विनिविदा पद्धति से ओनलाइन टेंडर मांगे जा रहे हैं। बिडर निविदा की प्रति [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in), [www.cenexahmedabad.nic.in](http://www.cenexahmedabad.nic.in), [www.eprocurement](http://www.eprocurement) वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

  
27/5/20  
सहायक आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

२. नोटिस बोर्ड, अहमदाबाद साउथ



प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अहमदाबाद साउथ  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर भवन, सरकारी पोलिटेक्निक के निकट,  
आम्बावाड़ी, अहमदाबाद - 380015

Phone: 079-26309083

Fax: 079-26309997

F. No. I/22-07/19-20/Adm

Date : .05.2020

This office invites sealed quotations from experienced and reputed firms for the work for **Washing Towels, Napkin and Curtain** for all section of Central GST, Ahmedabad South (HQ) and office of the PCCO.

2. Interested parties are requested to furnish the rates for Washing Towels, Napkin and Curtain in the below prescribed proforma.

Sr.No	Particular	Size	Rate (Inc all taxes)
01	Towel	150 X 75 cm.	
02	Napkin	60 X 40 cm.	
03	Curtain	5 X 6 ft.	

**Eligibility requirements:**


Sr.No	Particular	
01	Name of Organization/Firm	
02	Name and Address	
03	Telephone No.	
04	Goods & Service Tax Registration (If available)	
05	PAN Card (If available)	

Interested parties are requested submit the tender in a sealed cover super scribed as "**Tender for Washing Towel, Napkin and Curtain**" at the below mentioned address.

**"Assistant Commissioner (Adm)",**  
**Room No.103, 1<sup>th</sup> Floor, Central Excise Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-**  
**380015, Latest by 15.00 hrs, 09.06.2020.**

Details of tender can also be accessed on departmental website [www.cbcc.gov.in](http://www.cbcc.gov.in), [www.cenexahmedabad.nic.in](http://www.cenexahmedabad.nic.in), [www.eprocurement](http://www.eprocurement). No bid will be entertained received after the stipulated date. The tender document may also be downloaded from the website [cbcc.gov.in](http://cbcc.gov.in).

Terms and Conditions of the work is given in the "Annexure-I". This office reserve the right to accepts or reject any/all the said quotations without assigning any reason thereof.

  
Assistant Commissioner (Adm)

Copy to:

1. Superintendent (System), Central GST, Ahmedabad South to upload the same in above mentioned website.
2. All Notice Board.

## **Annexure-I**

### **The parties shall be governed by the following terms and conditions:-**

1. This office doesn't bind itself to accept the lowest tender and reserves the right to reject any or all the tenders received without assigning any reason whatsoever. Tenders in which any of the particulars and prescribed information are inadequate or incomplete in any respect or the prescribed conditions are not fulfilled, are liable to be rejected.
2. The tenders received after the due date shall be summarily rejected, and not taken into consideration.
3. Conditional/Unsolicited tenders shall not be considered.
4. Vendor should collect Towels, Napkins on every Friday from this office and return back after washing properly on Monday Morning without fail.
5. The vendor should submit the bill at the end of the every month.
6. No extra payment will be made on or above the rate quoted for washing charges.
7. The contract will be awarded for the year from the date of entering the contract.
8. The rates/quotations should be submitted and signed by the firm with its current business address and contract number.
9. Advance payment is not permissible.
10. Payment is to be made depending upon fund available with this office.